



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 22 अगस्त, 2022 / 31 श्रावण, 1944

हिमाचल प्रदेश सरकार

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-13, the 20th August, 2022

No.F.No.E-2438-DIT-F05(23)/1/2017-ROW Policy-Loose-172.—The Government of Himachal Pradesh hereby makes the following amendments to the Himachal Pradesh Right of Way Policy, 2021:

1. Short title and commencement.—(1) These amendments may be called the Himachal Pradesh Right of Way Policy (Amendment), 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Right of Way Policy, 2021 (hereinafter referred to as the said policy), in the Clause-7 sub clause D, proviso (e) is amended as follows:

“(e) Copy of sanctioned roof plan, only in case of Urban areas falling under Urban Local Bodies/Town and Country Planning Department/Special Area Development Authority, if the tower is to be erected on an existing building.”

3. In the said policy, in the Clause 7 sub clause D, proviso (f) is amended as follows:

“(f) Copy of the approved completion plan clearly depicting that the completion of top floor along with roof of the building has been approved by the Competent Authority, only in case of Urban areas falling under Urban Local Bodies/Town and Country Planning Department/Special Area Development Authority. In case of some buildings completed before a cut-off date, there is no need of building completion plan. In such cases structural safety certificate will suffice.”

4. In the said policy, in Clause 8 sub clause A, proviso (ii) is amended as follows:

(ii) For Over ground Telegraph Infrastructure:

5. In the said policy, in Clause 8 sub clause B, proviso (a) is amended as follows:

(a) Grant permission on the portal on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment of restoration charge in form of Bank Guarantee, as may be specified, subject to the provisions of this Policy, or Reject the application on the portal for reasons to be recorded in writing. Provided that no application shall be rejected unless the applicant Licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection :

Provided further that the concerned District Nodal Officer shall communicate acceptance or rejection of the application to the applicant within 10 days of receiving of report from the concerned Nodal Officer (s):

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the DNO fails to either grant permission or reject the application under (a) and communicate the decision to the applicant within 60 days from the date of receiving of such application.

Sd/-
(Dr. RAJNEESH, I.A.S.),
Principal Secretary (IT).

Note.—The Himachal Pradesh Right of Way Policy, 2021 was notified *vide* Notification No.-IT-(F)1-1/2020, dated: 09-02-2021.

DOOR-TO-DOOR GARBAGE COLLECTION & DISPOSAL BYE-LAWS 2018

NOTIFICATION

Dated,

No.—MCJ/2022-1106.—The following Bye-laws made by Municipal Council Jawalamukhi, Distt. Kangra, H.P. for regulating The **Door to Door Garbage Collection & Disposal—2018** in exercise of the powers conferred by Section 202 and 217 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 12 of 1994) read with rule 15 (zf) of the Solid Waste Management Rules, 2016 having been confirmed by State enforcement, as required under section 217 of the aforesaid Acts are hereby published for general information, namely.

**BYE-LAWS FOR DOOR TO DOOR GARBAGE COLLECTION & GARBAGE DISPOSAL
AT MUNICIPAL COUNCIL JAWALAMUKHI, DISTT. KANGRA (H.P.)**

CHAPTER—I

GENERAL

1. Short title and commencement.—(a) These Bye-laws may be called The **Door-to-Door Garbage Collection and Disposal bye-laws 2018 of Municipal Council Jawalamukhi** for municipal solid waste management & disposal.

(b) These bye-laws shall come into force from the date of their adoption and publication in the Rajpatra, the gazette of Himachal Pradesh Government.

(c) This shall apply to Municipal Council Dehra municipal area.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(A) “**act**” means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Himachal Pradesh Municipal Act, 1994;

(B) “**bulk waste generator**” means and includes buildings occupied by the Central Government Departments or undertakings, State Government Departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100kg. per day;

(C) “**bye-laws**” means regulatory framework notified by local body, census town and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction;

(D) “**composting**” means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(E) “**disposal**” means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains on land as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

- (F) **“domestic hazardous waste”** means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;
- (G) **“door to door garbage collection”** means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;
- (H) **“dry waste”** means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary napkin and diapers, etc.;
- (I) **“dump sites”** means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;
- (J) **“fine/penalty”** means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these bye-laws.
- (K) **“municipality”** means the municipal Council of Himachal Pradesh;
- (L) **“non-biodegradable waste”** means any waste that cannot be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds.
- (M) **“sanitary land filling”** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;
- (N) **“sanitary waste”** means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;
- (O) **“schedule”** means the schedule indicating the rate in respect of sign boards;
- (P) **“secondary storage”** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;
- (Q) **“segregation”** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely bio-degradable wastes including agriculture and dairy waste, non-bio-degradable wastes including recyclable waste, non-recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;
- (R) **“service provider”** means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc.;

- (S) **“user fee/charge”** means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services.
- (T) **“waste picker/ collector”** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood.

Words and expressions used herein but not defined, but defined in The Environment (Protection) Act, 1986, The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Himachal Pradesh Corporation Act, 1994, Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Solid Waste Management Rules, 2016 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts and Rules.

CHAPTER—II

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE

3. Municipal Solid Waste Management.—The Municipal Council shall establish an integrated Solid Waste Management (SWM) system with an aim to reduce the amount of waste being disposed, while maximizing resources recovery and efficiency. The preferred waste management system shall focus on the following points, namely:—

- I. *Reduction and reuse at source.*—The most preferred option for Solid Waste Management shall be prevention of waste generation. It will be helpful in reducing the handling, treatment and disposal costs and specially reduce various environmental impacts such as leachate, air emissions and generation of greenhouse gases.
- II. *Waste recycling.*—Recovery of recyclable material resources through a process of segregation, collection and re-processing to create new products shall be the next preferred alternative.
- III. *Composting.*—As far as possible the organic fraction of waste shall be composted and used to improve soil health and agricultural production adhering to norms.
- IV. *Waste-to-Energy.*—Where material recovery from waste is not possible, energy recovery from waste through production of heat, electricity or fuel may be preferred. Bio-methanation, waste incineration, production of Refuse Derived Fuel (RDF) and co-processing of the sorted dry rejects from municipal solid waste are to be commonly adopted “Waste-to-Energy” technologies.
- V. *Waste disposal.*—Remaining residual waste, which ideally comprises of inerts, shall be disposed in sanitary landfills constructed in accordance with stipulations of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- VI. The Integrated Solid Waste Management system shall be environment friendly. Waste minimization, waste recycling, waste-to-energy strategies and landfill gas capture and use which are promoted in the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be adopted for reduction of greenhouse gases.

MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION

4. Segregation & Primary Storage of Municipal Solid waste.—(a) It will be prime responsibility of every waste generator/citizen to segregate the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous wastes in suitable covered bins and handover segregated wastes to authorised waste pickers or waste collectors designated by ULBs or Agency Hired by ULBs once a day or at the frequency as decided by respective local body on the timing fixed by the service provider. Every citizen has to pay a fixed monthly rental for the services of door to door garbage collection.

(b) Waste generators shall be encouraged to segregate waste and store at source in three separate colour bins *i.e.* green-for biodegradable waste, blue-for non-biodegradable, red-for domestic hazardous waste.

(c) All institutions with more than 5,000 sqm. area shall, within one year from the date of notification of these bye-laws and in partnership with the Nagar Panchayat, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Nagar Panchayat.

(d) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Nagar Panchayat, atleast three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the Nagar Panchayat.

(e) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a newspaper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.

(f) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the Municipality.

(g) Store construction and demolition waste separately, as and when generated, in his own premises and shall dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(h) Bulk waste generators of garden and horticulture waste like park, stadium etc. shall store separately in their premises and dispose of the same as may be prescribed by the Municipal Council from time to time.

(i) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with municipal solid waste and such waste shall follow the rules specifically separately specified for the purpose.

(j) Every waste generator has to ensure that there is no practice of burning or burying the solid waste generated by him, throwing on streets/ open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

(k) Littering of waste on streets /open space/ water bodies/drain shall be fined on the spot. On iterative they will be punishable and can be subjected to court as per rule.

(l) Time to time awareness generation campaigns should be organised to motivate people. RWA (Resident Welfare Association), Local NGOs, representative of public association and elected local member should be involved in the programme to motivate citizen.

5. Primary Collection of Municipal Solid Waste.—(a) Each and every house in the city/town should be approached for the primary collection of waste by means of wheel barrow, push cart, tricycle, small auto tipper depending on the size of road available.

(b) Municipal Council have to arrange for daily door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-story buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location.

(c) Municipal Council have to establish a system to recognise organisations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorised waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste.

(d) Municipal Council have to facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration of informal waste pickers in solid waste management including door to door collection of waste.

(e) Municipal Council have to collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and local situation.

(f) Municipal Council have to collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible.

(g) Time for the door to door collection services will have to fixed by the concern ULBs. Generally timing should to be between 6.00 A.M. to 9.00 A.M. For proper waste collection vehicle such as tricycle, auto tipper used for door to door garbage collection should be equipped with Alarm with audible decibel fixed as per the rules and timing should be strictly followed by the sanitation workers.

(h) For door to door garbage collection from commercial complex, offices and secondary bins timing should be between 9.00 A.M. to 11.00 A.M.

(i) For proper solid waste management & grievance redresses Municipal Council should set up small office/centre in each ward within their boundaries.

(j) Under door to door services user charge for collection should be formulated on the following criteria.

Sl. No.	Category of User	User Charge on monthly basis (INR)
1.	Household	50
2.	Commercial Complex (Dhabba, sweet shop, coffee houses, provisional stores)	200
3.	Pan Shop	50
4.	Tea Shop, Street Vendors	50
5.	Shops (Daily needs, cloths) Prasad Shops, Toy Shop, Fast Food Stall	80
6.	Vegetables & fruits shops (Wholesale)	500
7.	Vegetables & fruits shops (Retails)	200
8.	Sweet /snacks shop (Big)	200
9.	Offices (2 rooms)	100
10.	Offices (3-5 rooms)	250
11.	Offices (6-10rooms)	1000
12.	Offices (11 – 20 rooms)	2000
13.	Offices (more than 20 rooms)	2000 for 20 rooms + 100/ additional room
14.	Bank Bank Floor Area > 1000 sq. feet	500
15.	Govt. Schools	100
16.	Private Schools up to 100 students on producing student's enrolment certificate	250
17.	Private Schools (more than 100 students)	500
18.	Bakeries (small)	200
19.	Bakeries (manufacturing units)	1000
20.	Hotel/Guest House (upto 10 rooms)	400
21.	Hotel/Guest House (11 - 20 rooms)	600
22.	Hotel/Guest House (21 - 30 rooms)	1000
23.	Hotel/Guest House (more 30 rooms)	2000
24.	Dharamshala less than 50 rooms	1000
25.	Dharamshala more than 50 to 100 rooms	2000
26.	Dharamshala more than 100	4000
27.	Factories (Manufacturing unit) other than notified in any other category	1500
28.	Workshop (Tyre puncture shop, repair, spare parts shop)	200
29.	Restaurants	400
30.	Restaurants + Bar	1000
31.	Cinema Hall (Theatre, multiples)	1500
32.	Govt. College	500
33.	Private College	1000
34.	Hospital /Nursing Home (up to 50 beds)	1500
35.	Hospital /Nursing Home (51-100 beds)	2000
36.	Hospital /Nursing Home (more than 100 beds)	2000 + 1000/ trip on demand
37.	Clinics	200
38.	Clinics with medicines shops	200
39.	Chemist shop	200
40.	Laboratory	200

41.	Banquet Hall/Hotel	2000 & 2000/ trip on demand
42.	Special Hotels more than 50 Rooms	15000 & 2000/trip on demand
43.	Vehicle on demand	2000
44.	Big Malls	2000
45.	Meat Shops (other than subscribed with chicken waste collection vehicle)	200
46.	Confectionary+Veg. Shop	200
47.	Scrap Dealers	400
48.	Street Vendor	50
49.	Cow Dung from cattle at households	350
50.	Temple (Jwalamukhi Trust)	To be assessed time to time
51.	Any other establishment(s) not mentioned above	To be decided by ULB

Note.—User charge as prescribed above can be revised by the ULB time to time keeping in view the polluter pay principal to meet the operation and maintenance cost of the services under Solid Waste Management.

(k) User charges mentioned above for door to door services needs to be collected from each and every household & other establishments of all the wards in the municipal boundaries of the ULBs. Users charge decided above, contact person's name & number needs to be conveyed to general public through different media such as display on the vehicles used for these services, hoardings, pamphlets etc. Also, awareness generation campaigns need to be organised.

(l) No manual loading or unloading of waste in compactor should be practised with open hand or without safety measure as per the Solid Waste Management Rules, 2016.

6. Secondary Storage of Municipal Solid Waste.—Municipality by their own or with the help of Agency hired needs to develop storage bins/secondary storage points for the collection of waste generated in the town, they will also be responsible to monitor the condition of these bins so that no filthy or unhygienic condition develops around. While establishing or monitoring secondary storage bins following precaution needs to be taken care :

- a. Storage/Secondary storage bins should be designed and develop on the basis of the quantity of waste generated, density of population in the notified municipal boundaries. Minimum distance between two bins should be 500 meters and within radius of 1 Km maximum numbers of bins should be limited upto to 5. Established bins must be covered with movable lid and must be approachable/connected with metallic or non-metallic road.
- b. Bins provided by Municipal Council or any hired agency should be designed in such a manner so that waste disposed in does not get scattered in open atmosphere and it should be artistic in nature so that it motivates people to dispose their waste in the bins not in open.
- c. Bins placed at designated place by Municipal Council or any hired agency should motivate people to practice waste segregation and it should be placed as per Solid Waste Management Rule, 2016 having colour coding for different types of waste.
 - Green:—Biodegradable waste (food waste, garden waste)

- Blue:—Non-Biodegradable waste
 - Red:—Hazardous or toxics waste
- d. Well-designed Vehicle like auto Tipper/Compactor should be used for the purpose of transportation of waste and evacuating the bins.
 - e. All the cooperative society, residential welfare association/society, institutional organisation will be responsible to place suitable quantity of bins approved by the Municipal Council on the fixed place in their compound so that waste generated from there can be stored properly and collected from time to time by the municipal vehicle. User charge for these services fixed by the ULBs should be collected by the authorised person of local body.
 - f. It will be prime responsibility of all the waste generators/ citizens to store and sell/handover the recyclable waste to the Rag pickers/Kabadiwala or person/organisation designated by the Nagar Panchayat. They have to ensure that no such waste is being disposed on the road/ drain / secondary storage bins/open space.
 - g. Door to door garbage collection, secondary storage bins, collection & transportation, processing of waste and disposal of waste in sanitary land fill site, all these services will be provided by Municipal Council or any hired agency. ULBs will charge user fee for all these services and violator will be fined on the spot or punished and can be subjected to court as per rule.
 - h. Waste from the slaughter house, fish market, fruit & vegetable market is biodegradable in nature, so proper storage facility should be designed so that no health hazard spreads from this & facility for composting should be developed to make use of such waste in generating organic manure from it. For ensuring proper disposal of such waste every generator have to ensure best storage facility and segregation of such waste at source and door to door collection should be practiced by ULBs to collect 100% of such waste and take to processing plant. On Violation, waste generator should be fined on the spot or punished and can be subjected to court as per rule.
 - i. Municipal Council have to establish waste deposition centres for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometres or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres.
 - j. Bio medical & industrial waste should not be mixed with municipal waste and such waste should be stored and disposed separately as per the rules applicable. For the disposal of bio-medical waste common Biomedical Waste Treatment facility (CBMWTF) should be developed in each ULB either separately or on the cluster basis. By paying the fixed user fee such waste can be easily disposed off.
 - k. Construction and demolition waste should be stored separately as and when generated, in his/her own premises and shall be disposed off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016. ULBs should fix user charge for transportation and disposal of C&D waste and generator should dispose this waste by paying the charge as per the rules and at the designated place. Disposing of such waste in open space, road side, common place will be treated as illegal and fined as per the rules.

- l.* Gardening/Horticultural waste should also be stored separately at source. ULBs should fix a day or two in a week and some place where generator should give their waste and from there it should be transported to disposal site.
- m.* Dry leaves, plastic and other such waste should not be burnt in open; doing such activity will be treated as illegal and punishable, violator shall be fined as per the rules.
- n.* Stray animal should be restricted from roaming in and around the waste disposal site & secondary storage bins or any public place in the town.
- o.* Every citizen, institutions, office buildings, commercial complexes has to ensure that there is no open discharge of grey water, black water or any other such polluted water in drain, open space or on road which can spread health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.
- p.* No person should dispose dead animal or any such material in open space, road side, community park or any other place which can spread pollution and health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.
- q.* Municipal Council have to set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transportation vehicle is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body.
- r.* Municipal Council can develop bins free solid waste management facility but for this 100% waste collection from the door step of the generator should be ensured.

7. Secondary Collection & Transportation of Municipal Solid Waste.—(a) Each storage bins/secondary storage bins should be attended daily by the help of auto tipper, tractor, compactor etc.

(b) Closed vehicle should be used for the transportation of waste. To reduce the frequency of loading and unloading of waste compactor should be used.

(c) Municipal Council will have to ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility.

(d) Transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for onsite processing of such waste.

(e) Transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility. Ensure transportation of construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

CHAPTER-IV

MUNICIPAL SOLID WASTE PROCESSING & DISPOSAL

8. Waste Processing Plant.—Municipal Council with the approval of State Pollution Control Board needs to develop solid waste management/processing plant to make use of daily

generated biodegradable waste so that it can reduce the quantity of waste being disposed at the sanitary land fill site.

- (a) Municipal Council have to collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralised compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions.
- (b) Involve communities in waste management and promotion of home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.
- (c) For processing of biodegradable waste Municipal Council / Municipal Council have to establish waste processing plant such as composting plant – windrow compost plant, vermicomposting plant, waste to energy or any other such technology by their own or with help of any other licensed company/firm /organisation on Build – operate - transfer (BOT)/ object oriented (OO) method.
- (d) For processing of mixed recyclable waste Municipal Council / Municipal Council have to establish recycling unit such as incineration, RDF Plant or other such recycling technology by their own or with the help of any other licensed company/firm/organisation on Build – operate - transfer (BOT)/ object oriented (OO) method.
- (e) Municipality may also send the non-biodegradable/dry waste as RDF to nearby cement factories for co-processing.

9. Waste Disposal.—(a) Municipal Council have to stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over.

(b) Municipal Council have to allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill.

(c) Sites shall meet the specifications as given in Schedule–I of Solid Waste Management Rules, 2016, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(d) Municipal Council have to investigate and analyse all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of biomining and bio-remediation and where so ever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites.

(e) Municipal Council have to ensure that in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

CHAPTER-V

MONITORING BY WARD COMMITTEE

Constitution of Ward Sanitation Committee.—A Ward Sanitation Committee shall be constituted in each ward of the Nagar Panchayat. The Ward Sanitation Committee shall have 11 to 15 members. The members of the WSC would comprise of ward member, sanitary supervisor, tax collector or a designated officer by Municipal Council for each ward, representatives of Residential Welfare Associations (RWAs) of the ward, representatives from slum sanitation committee, representatives of Community Based Organisations (SHGs, youth club etc.), local leaders, senior citizens etc. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation activity in the ward.

CHAPTER-VI

STAKEHOLDER'S RESPONSIBILITIES

10. Responsibilities of various stakeholders:—

10.1 Responsibilities of Waste Generators.—(a) No waste generator shall throw the waste generated by him on the street, open spaces, drain or water bodies.

(b) No person shall let the dirty water, mud, night soil, cow dung, urine, polluted water from their own house, organisation, commercial establishments to accumulate in their own compound nor let it flow on common streets in a way that the environment gets polluted by foul smell or poses a threat to public health.

(c) To wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-bio-degradable waste.

(d) All citizens shall have the responsibility to dispose of the recyclable waste generated in their complexes to the waste pickers authorised by the Municipal Councillor waste collector or containers of the Municipal Council and not put it on the road under any circumstances.

(e) All waste generators shall pay user fees as specified in these bye-laws.

(f) No waste generator shall throw, burn or bury the solid waste generated by him on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

(g) No dead animals or their remains to be thrown in any public places or any such place, which create any kind of pollution.

(h) If any person is found violating activities prohibited for doing, fine charges shall be collected from the offender by the Nagar Panchayat.

10.2 Responsibility of Ward Sanitation Committee.—(a) The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation and cleanliness activities in ward.

(b) The Ward Sanitation Committee shall act as a grievances redressal point on sanitation issues at ward level.

(c) The Ward Sanitation Committee shall have the power to impose fine on any offender and also have the power to waive of penalties.

(d) The Ward Sanitation Committee will promote home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygiene around the facility.

(e) The Ward Sanitation Committee will give warning to any offenders of these bye-laws. After two warnings by the Ward Sanitation Committee or the Nagar Panchayat, penalty shall be collected from the violator as per the provisions of these bye-laws.

10.3 Responsibility of the Municipal Council.—(a) The Municipal Council shall within its territorial area, be responsible for ensuring daily and throughout the year system of cleaning of all common roads, places, temporary settlements, slums, areas, markets, its own parks, gardens, tourist spots, cemeteries and shall be bound to collect the garbage from the nearest declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which the municipal authority may engage private parties on contract or Public Private Partnership mode, apart from its own permanent cleaning staff and vehicles.

(b) The Municipal Council or the authorized agency engaged by the Municipal Council shall provide and maintain suitable community bins on public roads or other public spaces.

(c) The Municipal Council for the purpose of managing such sanitation activities in decentralised and regular manner shall designate one ward officer, in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garbage, landfill processing units etc. for final disposal of city's garbage.

(d) The designated ward officer by the Municipal Council shall also be a member of the concerned Ward Sanitation Committee which shall act as the first point of grievance redressal on sanitation issues of the concern ward and meet complains of citizens on issues of sanitation.

(e) The Municipal Council shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the technologies and the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board.

(f) The Municipal Council shall create awareness through Information, Education and communication (IEC) campaign and educate the waste generators on minimal generation of waste, not to litter, re-use the waste to the extent possible, practice segregation of wet bio-degradable waste, dry recyclable and combustible waste and domestic hazardous waste at source, wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-bio degradable waste, storage of segregated waste at source and payment of monthly user fee.

(g) Chemical fertilizers shall be replaced by use of compost in all parks, gardens maintained by the Municipal Council and any other places within two years of notification.

(h) Promote recycling initiatives by informal waste recycling sector.

(i) The Municipal Council shall make efforts to streamline and formalize Solid Waste Management systems and endeavour that the informal sector workers in waste management (rag

pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of Solid Waste Management in cities.

(j) Ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.

(k) Ensure occupational safety of the Municipal Council own staffs and staffs of outsource agency involved in collection, transport and handling waste by providing appropriate and adequate personal protective equipment's.

(l) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer-in-charge of the facility shall report to the Municipal Council immediately which shall review and issue instructions if any, to the in- charge of the facility.

CHAPTER—VII

PROSECUTION & PENALTIES

11. Prosecution.—

- I. Prosecution can be made on violation of above said rules Under Municipal Solid Waste Management rules, 2016, Himachal Pradesh Municipal Council Act, 1994 and Environmental Protection Act, 1986. Even the prosecution can be made on the official/workers responsible for implementing so called services under the above said Bye-Laws if they are not performing their task or delaying their responsibility to implement the services.
- II. Whosoever contravenes the provision of above said Bye-Laws shall be in addition to the penalties already mentioned under any act/ rules/ laws/ bye-laws for time being in force would be liable for disconnection of water supply, electricity and other civic amenities and the Executive Officer of the Municipal Council Dehra may request the competent authorities to withdraw any other services if granted in favour of Institution/ Commercial Establishment/person committing the offence.

12. Penalties.—

On the violation of above said municipal Bye-Laws fixed penalties are as below:—

Sl. No.	Offence	Municipal Council/Nagar Panchayat
1.	Littering by People of residential colony	Rs. 500 per day
2.	Open dumping by shopkeepers	Rs. 1000 per day
3.	Littering/ open dumping by restaurants owners	Rs.2000 per day
4.	Littering/ open dumping by Hotel Owners	Rs.2000 per day
5.	Littering/ open dumping by Industries	Rs.5000 per day
6.	Street Vendor like fast-food, chat, ice-cream, juice corner etc.	Rs. 250 per day
7.	Open defecation/ urination in public place	Rs. 500 per day

8.	Disposal of dung in open space / public place	Rs. 2000 per day
9.	Disposal of construction & demolition waste in open space/ road side/ public place by resident.	Rs. 2000 per day
10.	Littering of waste like dung, construction & demolition waste on road while transporting through private tractor/vehicle.	Rs. 2000 per day
11.	Disposal of waste water from house in non-authorised place.	Rs. 2000 per day
12.	Disposal of sewer in non-authorised place	Rs. 5000 per day
13.	Not keeping of closed dust bins in adequate number & quantity by owners mention from Sl. No. 2-6	Rs. 5000 per day
14.	Spilling of Oil, Dust, water & other material by road side Motar, Bike, Bicycle repair mechanics.	Rs. 1000 per day
15.	Disposal of Skin, feather, blood, flash or any other material of animal(s) by shopkeeper.	Rs. 2000 per day
16.	Littering by pet animals like dogs, cow, etc. on road side/ open space/ community place.	Rs. 1000 per day
17.	Littering or disposal of waste in front of Marriage hall, community place, exhibition hall, Mela ground.	Rs. 5000 per day
18.	Encroachment of Road for by Dhabas or any other such shop and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 1000 per day
19.	Encroachment of Road for by fruit, vegetable local vendor and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 250 per day
20.	Encroachment of Road Hair cutting salon and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 250 per day
21.	Encroachment & Disposal of construction & demolition waste in open space/ road side/ public place by Business man, shopkeepers.	Rs. 5000 per day
22.	Disposal of waste by Private Nursing home/ hospital, Clinics, Dispensaries on road side, open space.	Rs. 5000 per day
23.	Non-Segregation of waste at source	
i.	Residents	Rs. 250 for first offence and rate 500 for second & subsequent offences in a month.
ii.	Shopkeepers	Rs. 500 for first offence and rate 1000 for second & subsequent offences in a month.
iii.	Restaurants owners	Rs.1000 for first offence and rate 2000 for second & subsequent offences in a month.
iv.	Hotel Owners	Rs.1500 for first offence and rate 2500 for second & subsequent offences in a month.
v.	Industrial Establishment	Rs. 3000 for first offence and rate 5000 for second & subsequent offences in a month.

vi.	Sweets, snacks, fast food, Ice-creams, sugarcane & other juice and vegetables vendor carts.	Rs. 250 for first offence and rate 500 for second & subsequent offences in a month.
24.	Burning by people (residential)	Rs. 500 per day
25.	Burning by people (Commercial)	Rs.1000 per day

13. Repeal/Contradict:—

- ✓ Once these bye-laws come into force any other rules, bye-laws, policy with regard to this matter adopted by Municipal Council Jawalamukhi will be considered as disaffirm.
- ✓ Any work done or scheme implemented under any previous rules/bye-laws will not be impugning unless until it is just opposite or completely contrary to the action to be taken under the above said bye-laws.

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council Jawalamukhi ,
Distt. Kangra (H.P.).

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 22 अगस्त, 2022

सं०. वि०स०-विधायन.-प्रा०/1-1/2018.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2022 सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

“मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के पंद्रहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूँ।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

आदेश द्वारा:—

हस्ताक्षरित /—

उप-सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH THIRTEENTH VIDHAN SABHA**NOTIFICATION***Shimla-171004, the 22nd August, 2022*

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2018.—The following order by the Governor of the State of Himachal Pradesh, dated the 13th August, 2022 is hereby published for general information:—

“मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा के पंद्रहवें सत्र का तत्काल सत्रावसान करता हूँ।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।”

By Order:—

Sd/-
Deputy Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

विभाजन केस नं0 : 11/2022

तारीख पेशी : 26-08-2022

1. अमीन चन्द पुत्र जेटू राम, 2. रोशन लाल पुत्र जेटू राम, 3. देव राज पुत्र जेटू राम, 4. परमार चन्द पुत्र जेटू राम, 5. ओंकार चन्द पुत्र जेटू राम, 6. सन्सारो देवी पुत्री जेटू राम, 7. ओंकारो देवी पुत्री जेटू राम, 8. रचना देवी पुत्री जेटू राम, 9. सीता देवी पुत्री जेटू राम, निवासीयान महाल कुकड़गुन्धा, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

1. शक्ति चन्द पुत्र फूला राम, 2. रामकली पत्नी नारमल, 3. अंजली पुत्री नारमल पुत्र फूला राम, 4. नारो पुत्री फूला राम, 5. निरमा पुत्री फूला राम, 6. जगेशरो देवी पत्नी स्व0 श्री फूला राम, 7. राम चन्द पुत्र जूरा, 8. भूमि चन्द पुत्र जूरा, 9. वलदेव राज पुत्र जैसी राम, 10. संजीव कुमार पुत्र जैसी राम, 11. पंडित राम पुत्र दानू, 12. कालू राम पुत्र गुजरू राम, 13. धर्मू पुत्र भीमा, 14. रविन्द्र कुमार पुत्र वेली राम, 15. लेख राज राणा पुत्र मोहन सिंह राणा, 16. हंस राज राणा पुत्र मोहन सिंह राणा, 17. धोगरू राम पुत्र सुन्दर राम पुत्र खडू राम, 18. हिन्दलू राम पुत्र पूना राम, 19. राम चन्द पुत्र पूना राम, 20. सवेरो देवी पुत्री पूना राम, 21. छुणको देवी पुत्री पूना राम पुत्र खडू राम, 22. नानक चन्द पुत्र धुपलू, 23. मीरा देवी पत्नी स्व0 श्री देश राज, 24. अंकित पुत्र देश राज, 25. आदित्य पुत्र देश राज पुत्र धुपलू, 26. लोहली देवी पुत्री धुपलू, 27. स्वर्णो देवी पुत्री धुपलू, 28. दमोदरी देवी पुत्री धुपलू, 29. रेखा देवी पुत्री धुपलू, 30. रेशमा देवी पुत्री धुपलू, 31. किन्नौरी देवी पत्नी स्व0 श्री धुपलू, 32. अर्जुन सिंह पुत्र दीना नाथ, 33. विक्रमा देवी पुत्री दीना नाथ, 34. उर्मिला देवी पुत्री दीनानाथ, 35. वलवन्त सिंह पुत्र मेहर सिंह, 36. वन्दना देवी पुत्री मेहर सिंह, 37. अंजना देवी पुत्री मेहर

सिंह, 38. लच्छी देवी पुत्री वालो, 39. कमला देवी पुत्री वालो, 40. सोमा देवी पुत्री वालो पुत्री दंगेला, 41. कांसो पत्नी स्व० श्री दंगेला, 42. दासी राम पुत्र हेतू, 43. रोश कुमार पुत्र हनुमान, 44. जगेश्वर राम पुत्र हनुमान, 45. रतन चन्द पुत्र हनुमान पुत्र हेतू, 46. अदालती पुत्र हेतू, 47. शेर सिंह पुत्र धर्म चन्द, 48. परस राम पुत्र धर्म चन्द, 49. श्रीमती कला देवी पत्नी स्व० श्री धर्म चन्द पुत्र दीवाना, 50. छिंजू राम पुत्र दीवाना, 51. रणिया राम पुत्र दीवाना, 52. माणकू पुत्र दीवाना, 53. प्रीतो पुत्री ख्याली, 54. गणेश राम पुत्र टेक चन्द, 55. सूरवीर पुत्र टेक चन्द, 56. राकेश कुमार पुत्र नन्द लाल पुत्र भीमा, 57. चाकर राम पुत्र कन्हू, 58. गंगा देवी पुत्री कन्हू पुत्र देवी सहाय, 59. मस्त राम पुत्र देवी सहाय, 60. रतन चन्द, धारी राम पुत्र सुना देवी पुत्री देवी सहाय, 61. नानक चन्द पुत्र पूर्ण चन्द, 62. तरस राम पुत्र पूर्ण चन्द, 63. बंगला देवी पुत्री पूर्ण चन्द, 64. गोदावरी देवी पत्नी पूर्ण चन्द, 65. मीना देवी पत्नी प्रताप चन्द, 66. चमेल सिंह पुत्र हरेक चन्द पुत्र देवी सहाय, 67. श्रीमती सिन्ही पत्नी हरेक चन्द पुत्र देवी सहायत्र निवासीयान महाल कुकड़गुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रतिवादीगण।

उनवान मुकद्दमा.—हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 4, खतौनी नं० 9 ता 12, खसरा नं० 368, 372, 481, 871, 878, 930, 937, 942, 966, 969, 143, 204, 238, 308, 360/1, 374, 588, 621, 873, 938, 1021, 144, 203, 309, 359, 371, 551, 617, 870, 874, 881, 936, 1013, 1197, 1198, कित्ता-35, रकबा तादादी 0-53-44 है० वाक्या महाल कुकड़गुन्धा, मौजा कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

श्री अमीन चन्द, रोशन लाल, देव राज, परमार चन्द, ओंकार चन्द पुत्रान व सन्सारो देवी, ओंकारो देवी, रचना देवी, सीता देवी पुत्रियां जेदू राम, निवासीयान महाल कुकड़गुन्धा, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने भूमि खाता नं० 4, खतौनी नं० 9 ता 12, खसरा नं० 368, 372, 481, 871, 878, 930, 937, 942, 966, 969, 143, 204, 238, 308, 360/1, 374, 588, 621, 873, 938, 1021, 144, 203, 309, 359, 371, 551, 617, 870, 874, 881, 936, 1013, 1197, 1198, कित्ता-35, रकबा तादादी 0-53-44 है० वाक्या महाल कुकड़गुन्धा की हुकमन तकसीम इस कार्यालय में गुजार रखी है जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। इस तकसीम हुकमन में प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किये गए परन्तु तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से पाया गया कि प्रतिवादीगण देह हजा में नहीं रहते हैं तथा समन की तामील साधारण तरीके से नहीं करवाई जा सकती। वादी पक्ष ने प्रतिवादीगण के सही पता देने बारे हिदायत देने पर प्रतिवादीगण का सही पता देने में असमर्थता जताई। वादी पक्ष ने इशतहार राजपत्र प्रकाशित करने बारे प्रार्थना की है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम हुकमन बारे कोई भी ऐतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

विभाजन केस नं० : 12/2022

तारीख पेशी : 26-08-2022

1. अमीन चन्द पुत्र जेदू राम, 2. रोशन लाल पुत्र जेदू राम, 3. देव राज पुत्र जेदू राम, 4. परमार चन्द पुत्र जेदू राम, 5. ओंकार चन्द पुत्र जेदू राम, 6. सन्सारो देवी पुत्री जेदू राम, 7. ओंकारो देवी पुत्री जेदू राम, 8. रचना देवी पुत्री जेदू राम, 9. सीता देवी पुत्री जेदू राम, निवासीयान महाल कुकड़गुन्धा, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) प्रार्थीगण।

बनाम

1. शक्ति चन्द पुत्र फूला राम, 2. रामकली पत्नी नारमल, 3. अंजली पुत्री नारमल पुत्र फूला राम, 4. नारो पुत्री फूला राम, 5. निरमा पुत्री फूला राम, 6. जगेश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री फूला राम, 7. राम चन्द पुत्र जूरा, 8. भूमि चन्द पुत्र जूरा, 9. वलदेव राज पुत्र जैसी राम, 10. संजीव कुमार पुत्र जैसी राम, 11. पंडित राम पुत्र दानू, 12. कालू राम पुत्र गुजरू राज, 13. धर्मू पुत्र भीमा, 14. रविन्द्र कुमार पुत्र वेली राम, 15. लेख राज राणा पुत्र मोहन सिंह राणा, 16. हंस राज राणा पुत्र मोहन सिंह राणा, 17. धोगरू राम पुत्र सुन्दर राम पुत्र खडू राम, 18. हिन्दलू राम पुत्र पूना राम, 19. राम चन्द पुत्र पूना राम, 20. सवेरो देवी पुत्री पूना राम, 21. छुणको देवी पुत्री पूना राम पुत्र खडू राम, 22. नानक चन्द पुत्र धुपलू, 23. मीरा देवी पत्नी स्व० श्री देश राज, 24. अंकित पुत्र देश राज, 25. आदित्य पुत्र देश राज पुत्र धुपलू, 26. लोहली देवी पुत्री धुपलू, 27. स्वर्णो देवी पुत्री धुपलू, 28. दमोदरी देवी पुत्री धुपलू, 29. रेखा देवी पुत्री धुपलू, 30. रेशमा देवी पुत्री धुपलू, 31. किन्नोरी देवी पत्नी स्व० श्री धुपलू, 32. अर्जुन सिंह पुत्र दीना नाथ, 33. विक्रमा देवी पुत्री दीना नाथ, 34. उर्मिला देवी पुत्री दीनानाथ, 35. वलवन्त सिंह पुत्र मेहर सिंह, 36. वन्दना देवी पुत्री मेहर सिंह, 37. अंजना देवी पुत्री मेहर सिंह, 38. लच्छी देवी पुत्री वालो, 39. कमला देवी पुत्री वालो, 40. सोमा देवी पुत्री वालो पुत्री दंगेला, 41. कांसो पत्नी स्व० श्री दंगेला, 42. दासी राम पुत्र हेतू, 43. रोश कुमार पुत्र हनुमान, 44. जगेश्वर राम पुत्र हनुमान, 45. रतन चन्द पुत्र हनुमान पुत्र हेतू, 46. अदालती पुत्र हेतू, 47. शेर सिंह पुत्र धर्म चन्द, 48. परस राम पुत्र धर्म चन्द, 49. श्रीमती कला देवी पत्नी स्व० श्री धर्म चन्द पुत्र दीवाना, 50. छिंजू राम पुत्र दीवाना, 51. रणिया राम पुत्र दीवाना, 52. माणकू पुत्र दीवाना, 53. प्रीतो पुत्री ख्याली, 54. गणेश राम पुत्र टेक चन्द, 55. सूरवीर पुत्र टेक चन्द, 56. राकेश कुमार पुत्र नन्द लाल पुत्र भीमा, 57. चाकर राम पुत्र कन्हू, 58. गंगा देवी पुत्री कन्हू पुत्र देवी सहाय, 59. मस्त राम पुत्र देवी सहाय, 60. रतन चन्द, धारी राम पुत्र सुना देवी पुत्री देवी सहाय, 61. नानक चन्द पुत्र पूर्ण चन्द, 62. तरस राम पुत्र पूर्ण चन्द, 63. वंगला देवी पुत्री पूर्ण चन्द, 64. गोदावरी देवी पत्नी पूर्ण चन्द, 65. मीना देवी पत्नी प्रताप चन्द, 66. चमेल सिंह पुत्र हरेक चन्द पुत्र देवी सहाय, 67. श्रीमती सिन्ही पत्नी हरेक चन्द पुत्र देवी सहाय, निवासीयान महाल कुकड़गुन्धा, मौजा कोठी कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

उनवान मुकद्दमा.—हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खाता नं० 5, खतौनी नं० 13 ता 18, खसरा नं० 306, 452, 1141, 1142, 373, 734, 939, 141, 239, 307, 367, 566, 586, 733, 875, 967, 968, 142, 360, 366, 563, 587, 1012, 1025, 584, 585, 620, 1143, कित्ता-28, रकबा तादादी 0-28-80 है० वाक्या महाल कुकड़गुन्धा, मौजा कोहड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

श्री अमीन चन्द, रोशन लाल, देव राज, परमार चन्द, औंकार चन्द पुत्रान व सन्सारो देवी, औंकारो देवी, रचना देवी, सीता देवी पुत्रियां जेठू राम, निवासीयान महाल कुकड़गुन्धा, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने भूमि खाता नं० 5, खतौनी नं० 13 ता 18, खसरा नं० 306, 452, 1141, 1142, 373, 734, 939, 141, 239, 307, 367, 566, 586, 733, 875, 967, 968, 142, 360, 366, 563, 587, 1012, 1025, 584, 585, 620, 1143, कित्ता-28, रकबा तादादी 0-28-80 है० वाक्या महाल कुकड़गुन्धा की हुकमन तकसीम इस कार्यालय में गुजार रखी है जोकि इस अदालत में विचाराधीन है। इस तकसीम हुकमन में प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किये गए परन्तु तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से पाया गया कि प्रतिवादीगण देह हजा में नहीं रहते हैं तथा समन की तामील साधारण तरीके से नहीं करवाई जा सकती। वादी पक्ष ने प्रतिवादीगण के सही पता देने बारे हिदायत देने पर प्रतिवादीगण का सही पता देने में असमर्थता जताई। वादी पक्ष ने इशतहार राजपत्र प्रकाशित करने बारे प्रार्थना की है। अतः अब इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि इस तकसीम हुकमन बारे कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
मुलथान, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 14 / T/C/ 2022

तारीख दायरा : 28-7-2022

तारीख पेशी : 30-08-2022

शक्ति चन्द पुत्र ब्रह्मू पुत्र गंगा राम, वासी महाल जोल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल जोल में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल जोल में शक्ति दत्त पुत्र ब्रह्मू पुत्र गंगा राम, वासी महाल जोल दर्ज है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व राशन कार्ड में शक्ति चन्द पुत्र ब्रह्मू दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल जोल में शक्ति दत्त उपनाम शक्ति चन्द पुत्र ब्रह्मू पुत्र गंगा राम के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 10 / T/C/ 2022

तारीख दायरा : 28-7-2022

तारीख पेशी : 30-08-2022

पुष्पिन्दर कुमार पुत्र राम सिंह पुत्र वावू राम, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में चैचल पुत्र वावू राम पुत्र सोहणू वासी

महाल स्वाणा निचला दर्ज है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक कापी, वोटर कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत स्वाणा में राम सिंह पुत्र वावू राम दर्ज है। जोकि उनका सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में अपने पिता चैचल उपनाम राम सिंह पुत्र वावू राम पुत्र सोहनू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 13/ T/C/ 2022

तारीख दायरा : 21-7-2022

तारीख पेशी : 30-08-2022

कृष्णा देवी पुत्री अमरू, वासी महाल जलेरा, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल जलेरा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख जलेरा में सलोचना देवी पुत्री अमरू पुत्र सोहनू, वासी महाल जलेरा दर्ज है जबकि आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत जण्डौर में कृष्णा देवी पुत्री अमरू दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल जलेरा में सलोचना देवी उपनाम कृष्णा देवी पुत्री अमरू पुत्र सोहनू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 12/ T/C/ 2022

तारीख दायरा : 21-7-2022

तारीख पेशी : 30-08-2022

राज कुमारी पत्नी सुरिन्द्र सिंह, वासी महाल भोली, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल भोली में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख भोली में रजनी देवी पत्नी स्व0 सूरिन्द्र कुमार पुत्र मुख्तयार सिंह, वासी महाल भोली दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण—पत्र व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत कस्वा कोटला में राज कुमारी विधवा श्री सुरिन्द्र सिंह दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल भोली में रजनी देवी उपनाम राज कुमारी विधवा श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11/ T/C/ 2022

तारीख दायरा : 28-7-2022

तारीख पेशी : 30-08-2022

सुरजीत कुमार पुत्र हंस राज पुत्र प्रतापू, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में सुरजीत पुत्र हंस राज पुत्र प्रतापू, वासी महाल

स्वाणा निचला दर्ज है जबकि आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत स्वाणा में सुरजीत कुमार पुत्र हंस राज दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में सुरजीत उपनाम सुरजीत कुमार पुत्र हंस राज पुत्र प्रतापू के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बंधित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-08-2022 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं, उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

लुकनू उर्फ रिखनू पुत्र श्री भोईया, निवासी महाल व मौजा डन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती शजरा नस्ब महाल व मौजा डन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता

प्रार्थी श्री लुकनू उर्फ रिखनू पुत्र श्री भोईया, निवासी महाल व मौजा डन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि शजरा नस्ब महाल वन्नी परगना होवार, तहसील भटियात, जिला चम्बा में उसकी जाति सिप्पी, गोत ब्रहटान दर्ज है जो कि सही है जबकि शजरा नस्ब महाल व मौजा डन्नी में उसकी जाति कौली उपजाति सिप्पी दर्ज है जोकि गलत है। व दुरुस्ती शजरा नस्ब की जाए।

प्रतिवादी आम जनता को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जाति की दुरुस्ती होने पर कोई आपत्ति हो तो वह भीतर एक माह इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को प्रार्थी की जाति दुरुस्ती पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार दुरुस्ती शजरा नस्ब के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री ठोला राम, निवासी कूपड, मौजा जौंटा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत भडवार, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

प्रार्थी श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री ठोला राम, निवासी कूपड, मौजा जौंटा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें निवेदन किया है कि उसकी बहन श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी महाल गरनायडू, मौजा भडवार, तहसील नूरपुर की मृत्यु दिनांक 01-02-1995 को हो गई है जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भडवार, तहसील नूरपुर में दर्ज नहीं हो पाया है। प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हि0प्र0 की रिपोर्ट प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न है।

प्रतिवादी आम जनता को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की बहन का ग्राम पंचायत भडवार में मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के अन्दर इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज दायर कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की बहन के मृत्यु पंजीकरण पर आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार मृत्यु पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

केस नं0 : 10/NT/C/2022

तारीख दायरा : 04-04-2022

तारीख पेशी : 12-09-2022

शीर्षक.—श्री विक्रम सिंह पुत्र सरवन सिंह, निवासी महाल लूलेहड़, मौजा नौरा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0 प्र0 भू—राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम विक्रम सिंह पुत्र सरवन सिंह है जबकि महाल लूलेहड़ के राजस्व अभिलेख में वृकम चन्द पुत्र सरवन

सिंह दर्ज है, जो कि गलत है तथा महाल लूलेहड़ के राजस्व अभिलेख में उनका नाम विक्रम सिंह उपनाम वृकम चन्द पुत्र सरवन सिंह दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इशतहार राजपत्र, हि0 प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के नाम की उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इशतहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 12-09-2022 को प्रातः 10.30 बजे असातन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के नाम की दुरुस्ती उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 04/NT/D/2021

तारीख दायरा : 02-03-2022

तारीख पेशी : 12-09-2022

किस्म मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

शीर्षक.—श्री राजमल पुत्र सूंका राम, निवासी गांव गदियाड़ा, डा0 रझूं, ग्राम पंचायत रझूं गदियाड़ा, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता की मृत्यु गांव गदियाड़ा, डा0 रझूं, ग्राम पंचायत रझूं खास, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दिनांक 06-12-1979 को हुई है मगर अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत रझूं गदियाड़ा के अभिलेख में दर्ज न है। जिसे वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत रझूं गदियाड़ा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस बारे इशतहार राजपत्र, हि0प्र0 मुस्त्री मुनादी द्वारा उपरोक्त प्रत्यार्थी व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इशतहार/नोटिस के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 12-09-2022 को प्रातः 10.30 बजे असातन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 06-12-1979 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत रझूं गदियाड़ा को पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/NT/C/2022

तारीख दायरा : 29-04-2022

तारीख पेशी : 12-09-2022

शीर्षक.—श्री मुल्तान सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी महाल गदियाड़ा, मौजा रझूं, तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के अन्तर्गत।

प्रार्थी उपरोक्त ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका सही नाम मुल्तान सिंह पुत्र दलीप सिंह है तथा उसके पिता का सही नाम दलीप सिंह पुत्र निधा है, जबकि महाल खतीन के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुल्तान लाल पुत्र दलीपा व उसके पिता का नाम दलीपा पुत्र निधा दर्ज है, जोकि गलत है तथा महाल खतीन के राजस्व अभिलेख में उसका नाम मुल्तान सिंह उपनाम सुल्तान लाल पुत्र दलीप सिंह तथा उसके पिता का नाम दलीप सिंह उपनाम दलीपा पुत्र निधा दुरुस्त दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस बारे सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र, हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी व उसके पिता के नाम की उक्त गांव के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस इश्तहार/नोटिस जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या दिनांक 12-09-2022 को प्रातः 10.30 बजे अदालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा आवेदक व उसके पिता के नाम की दुरुस्ती उक्त महाल के राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती रंजू देवी पुत्री श्री रामू गांव जगूनी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 41/85, ता 136, कित्ता 18, रकबा तादादी 01-68-91 है0 महाल मकडोली व खाता/खतौनी नं0 67/137, कित्ते 19, रकबा तादादी 01-79-66 है0 महाल जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती रंजू देवी पुत्री श्री रामू गांव जगूनी, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थिया का नाम रंजू देवी पुत्री श्री रामू सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 41/85, ता 136, कित्ता 18, रकबा तादादी 01-68-91 है0 महाल मकडोली व खाता/खतौनी नं0 67/137, कित्ते 19, रकबा तादादी 01-79-66 है0 महाल जगूनी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में विजय लक्ष्मी दर्ज किया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम रंजू देवी है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजात में विजय लक्ष्मी के स्थान पर रंजू देवी दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में रंजू देवी उर्फ विजय लक्ष्मी दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

श्री पुर्ण चन्द पुत्र श्री भोगी, निवासी गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 50/115, खसरा नं० 1210, रकबा तादादी 00-11-39 है० व खाता/खतौनी नं० 51/116 ता 127, कित्ता 69, रकबा तादादी 04-29-46 है० महाल बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री पुर्ण चन्द पुत्र श्री भोगी, निवासी गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी का नाम पुर्ण चन्द पुत्र भोगी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 50/115, खसरा नं० 1210, रकबा तादादी 00-11-39 है० व खाता/खतौनी नं० 51/116 ता 127, कित्ता 69, रकबा तादादी 04-29-46 है० महाल बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) के खाना मालिक में जैडू दर्ज किया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम पूर्ण चन्द है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में जैडू के स्थान पर पुर्ण चन्द दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में पुर्ण चन्द उर्फ जैडू दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सुन्दर सिंह व फुफू राम पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव कुथरू, डा० कियाओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 28/106, ता 114, महाल सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सुन्दर सिंह व फुफू राम पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी गांव कुथरू, डा० कियाओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम ज्ञान चन्द सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 28/106, ता 114, महाल सुरू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला

शिमला (हि0 प्र0) के खाना कैफियत में काई राम पुत्र बुध राम दर्ज किया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम ज्ञान चन्द है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजात में काई राम के स्थान पर ज्ञान चन्द दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में ज्ञान चन्द दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

श्री साध राम पुत्र धोदी, निवासी गांव लालसा, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 362/1400, महाल लाडसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री साध राम पुत्र श्री धोदी, गांव लालसा, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड के मुताबिक प्रार्थी का नाम साध राम पुत्र धोदी सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 362/1400, महाल लाडसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना कैफियत में गुडडू दर्ज किया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम साध राम है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में गुडडू के स्थान पर साध राम दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में साध राम उर्फ गुडडू दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री यशपाल पुत्र श्री गोविन्द, गांव रांवी, डा0 सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख सराहन में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्री यशपाल पुत्र श्री गोविन्द, गांव रांवी, डा0 सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपनी पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण करवाने बारे आवेदन पत्र गुजारा है। प्रार्थी अज्ञानतावश अपनी पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न कर सका जिसकी जन्म तिथि निम्न है:—

क्रम संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	जन्म तिथि
1.	प्रियांशी	10-03-2019

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2022 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री पदम सिंह पुत्र श्री थैलू राम, गांव कलै, डा0 बौन्डा, ग्राम पंचायत सराहन, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख सराहन में मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे।

श्री पदम सिंह पुत्र श्री थैलू राम, गांव कलै, डा0 बौन्डा, ग्राम पंचायत सराहन, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में अपनी बहन की मृत्यु तिथि पंजीकरण करवाने बारे आवेदन पत्र गुजारा है। प्रार्थी अज्ञानतावश अपनी बहन की मृत्यु तिथि का पंजीकरण पंचायत अभिलेख सराहन में दर्ज न कर सका जिसकी मृत्यु तिथि निम्न है:—

क्रम संख्या	परिवार के सदस्य का नाम	मृत्यु तिथि
1.	नैण दासी पुत्री थैलू	15-07-1974

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की बहन की मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-09-2022 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

हह

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नरी सिंह, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नरी सिंह, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत आवेदन—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र नीरज कुमार का जन्म दिनांक 03-03-2004 को हुआ है और उसने अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में जन्म की तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे आवेदक अब ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-08-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित

आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर श्री नारायण सिंह के पुत्र नीरज कुमार की जन्म तिथि 03-03-2004 को ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा ।

आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नरी सिंह, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नरी सिंह, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री पूजा का जन्म दिनांक 26-03-2005 को हुआ है और उसने अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में जन्म की तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे आवेदक अब ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करवाना चाहता है ।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-08-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर श्री नारायण सिंह की पुत्री पूजा की जन्म तिथि 26-03-2005 को ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा ।

आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नरी सिंह, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नारायण सिंह पुत्र श्री नरी सिंह, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस अदालत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र सूरज का जन्म दिनांक 26-03-2006 को हुआ है और उसने अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में जन्म की तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे आवेदक अब ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-08-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर श्री नारायण सिंह के पुत्र सूरज की जन्म तिथि 26-03-2006 को ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री मन बहादुर थापा छेत्री पुत्र श्री चन्द्र बहादुर, निवासी फागू, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मन बहादुर थापा छेत्री पुत्र श्री चन्द्र बहादुर, निवासी फागू, डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस अदालत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 की धारा 9 (3) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र नवराज थापा छेत्री का जन्म दिनांक 22-08-2005 को हुआ है और उसने अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में जन्म की तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे आवेदक अब ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-08-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर श्री मन बहादुर थापा छेत्री के पुत्र नवराज थापा छेत्री की जन्म तिथि 22-08-2005 को ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मन बहादुर थापा छेत्री पुत्र श्री चन्द्र बहादुर, निवासी फागू डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मन बहादुर थापा छेत्री पुत्र श्री चन्द्र बहादुर, निवासी फागू डाकघर शाया छबरोन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 की धारा 9 (3) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री तमन्ना थापा का जन्म दिनांक 11-01-2011 को हुआ है और उसने अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में जन्म की तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे आवेदक अब ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-08-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर श्री मन बहादुर थापा छेत्री की पुत्री तमन्ना थापा की जन्म तिथि 11-01-2011 को ग्राम पंचायत भाणत के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री विनय कुमार पुत्र स्व0 श्री अतर चन्द, निवासी वार्ड न0 3, नजदीक दसन पब्लिक स्कूल राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विनय कुमार पुत्र स्व० श्री अतर चन्द, निवासी वार्ड नं० 3, नजदीक दसन पब्लिक स्कूल राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस अदालत में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 की धारा 9 (3) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके पिता अतर चन्द पुत्र देवी दास की मृत्यु दिनांक 12-01-1984 को हुई है, और उसने अज्ञानतावश नगर पंचायत राजगढ़ के जन्म एवं मृत्यु पंजी में मृत्यु की तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे आवेदक अब नगर पंचायत राजगढ़ के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-08-2022 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर श्री विनय कुमार के पिता अतर चन्द की मृत्यु तिथि 12-01-1984 को नगर पंचायत राजगढ़ के जन्म एवं मृत्यु पंजी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे तथा बाद में किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 22-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कपिल तोमर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Rajgarh, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Shri Pradeep s/o Sh. Geeta Ram

Versus

General Public

General public is hereby informed through this notice that Sh. Pradeep s/o Sh. Geeta Ram, r/o P.O. Kotla Bangi, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Ranjana Devi d/o Sh. Shyam Lal, r/o Dhak Gaon, P.O. Masli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith their affidavits in this court that they have solemnized their marriage as per Hindu rites and customs on 22-06-2009 at home in the presence of their relatives. They have requested to register their marriage in the record of Gram Panchayat Kotla Bangi, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

If any person has any objection against the registration of this marriage, then he/she can file his/her objection in this court on or before 23-08-2022, failing which matter will be decided as per rules.

Issued today on 22-07-2022 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत श्री रामभज शर्मा, नायब तहसीलदार, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

प्रकरण संख्या : 17/2022

श्री राहुल कुमार पुत्र बंता राम, हाल निवासी गुप्ता बिल्डिंग रामपुर घाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राहुल कुमार पुत्र बंता राम, हाल निवासी गुप्ता बिल्डिंग रामपुर घाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने भाई की मृत्यु तिथि 17-07-2019 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया/पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्जा में ऊपर वर्णित मृत्यु तिथि 17-07-2019 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री शुभम कुमार पुत्र बंता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 25-08-2022 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री शुभम कुमार की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत कुन्जा में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 25-07-2022 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री कलम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)**

श्री धर्म सिंह पुत्र श्री प्रभू, निवासी ग्राम अप्पर धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री प्रभू निवासी ग्राम अप्पर धमौण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी, मौजा कोटगा काण्डो, परिवार नकल ग्राम पंचायत पोका, आधार कार्ड, शजरा नस्ब ग्राम डोबरी, तहसील पांवटा, निर्वाचन पत्र व राशन कार्ड सहित इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी अपना नाम जोकि मुताबिक परिवार नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त सतौन में लेखराज पुत्र प्रभू की जगह सही नाम धर्म सिंह पुत्र प्रभू दर्ज करवाना चाहता है।

सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2022 से पूर्व या दिनांक 29-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री कलम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

Ngawang Pelmo d/o Sh. Tsering Phunstok, H. No. 77, Kham Kathok Tibetan Society,
P.O. Sataun, Tehsil Kamrau, Distrist Sirmaur (H.P.)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी Ngawang Pelmo d/o Sh. Tsering Phunstok, H. No. 77, Kham Kathok Tibetan Society, P.O. Sataun, Tehsil Kamrau, Distrist Sirmaur (H.P.) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2022-1310 दिनांक 21-06-2022 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत सतौन, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, e-FRRO प्रमाण-पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत सतौन द्वारा सतौन, तिब्बतन सैटलमैन्ट सतौन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं आधार प्रति सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 07-12-1998 है, जिसका अज्ञानतावश ईन्द्राज ग्राम पंचायत सतौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-08-2022 को प्रातः 11.00 बजे या दिनांक 29-08-2022 से पूर्व किसी भी दिन कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र Ngawang Pelmo d/o Sh. Tsering Phunstok, H. No. 77, Kham Kathok Tibetan Society, P.O. Sataun, Tehsil Kamrau, Distrist Sirmaur (H.P.) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-07-2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I Sanjay Verma s/o Chuni Lal r/o Village Salana, P.O. Maindhi, Teh. Karsog, Distt. Mandi H.P. declare that I have changed my name from Tek Chand to Sanjay Verma *vide* affidavit dated 28-07-2022 before Executive Magistrate Karsog, Distt. Mandi (H.P.) concerned note it.

SANJAY VERMA,
s/o Chuni Lal,
r/o Village Salana, P.O. Maindhi,
Teh. Karsog, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Lata Devi w/o Sh. Som Dutt, r/o Village Neri Nagar, P.O. Basadhar, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) aged about 30 years wants to change my name from Lata Devi to Lata Sharma. Therefore, necessary correction shall be made in all my records.

LATA DEVI,
w/o Sh. Som Dutt,
r/o Village Neri Nagar, P.O. Basadhar,
Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).

